



## प्रेस नोट थाना रजबपुर

दिनांक 18.06.2021

### मसालों से भरे केन्टर गाडी की डकैती की घटना का सफल अनावरण कर लूट में वांछित दस-दस हजार के इनामी 02 अभियुक्त गिरफ्तार, लूट का माल (कीमत करीब 22.5 लाख रुपये), लूट में प्रयुक्त बुलेरो गाडी व अवैध असलहे बरामद ।

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमती पूनम पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व, श्री अजय प्रताप सिंह अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी धनौरा श्री सतेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण में एस.ओ.जी टीम व थाना रजबपुर पुलिस द्वारा आज सुबह दिनांक 24.05.2021 को मसालों से भरा केन्टर गाडी की डकैती की घटना में वांछित अभियुक्तों को मय लूटे हुए माल, केन्टर गाडी, बुलेरो गाडी व अवैध असलहों सहित गिरफ्तार किया गया ।

अवगत कराना है कि दिनांक 24.05.2021 की रात्रि एनएच-9 पर ग्राम रजबपुर के पास से कैच मसालों से भरा केन्टर जो नोएडा से मसाला लेकर रुद्रपुर जा रहा था । जिसको बदमाशों द्वारा लूटने के सम्बन्ध में केन्टर गाडी चालक वादी सोनू गिरी पुत्र हरकेश गिरी ग्राम माकडी थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर की तहरीर पर थाना रजबपुर पर मु0अ0स0 164/2021 धारा 395,412 भादवि पंजीकृत किया गया था । हाईवे पर हुई डकैती की घटना की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये थे ।

आज प्रातः एस.ओ.जी. टीम अमरोहा व थाना रजबपुर पर सूचना मिली कि "लूटे गये मसालों के केन्टर को लूटने वाले बदमाश भवालपुर की तरफ से फैय्याजनगर चौराहा हसनपुर रोड की तरफ आने वाले है तथा केन्टर के आगे निगराने के लिये बदमाशों की ही एक सफेद रंग की बुलेरो चल रही है" इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा फैय्याजनगर चौराहे पर पहुंचकर बैरियर लगाकर सतर्कता से चैकिंग की जा रही थी कि थोड़ी देर बाद भवालपुर की तरफ से एक छोटी गाडी व एक बड़ी गाडी आती दिखाई दी जोकि पुलिस टीम को देखकर बैरियर से पहले ही रुकने लगी । पुलिस टीम के टोकने व रुकने के लिये कहने पर छोटी गाडी बुलेरो से 03 व्यक्ति व बड़ी गाडी केन्टर से 01 व्यक्ति उतरकर खेतों की तरफ भाग गये तथा अंधेरे का लाभ लेकर फरार हो गये । बुलेरो व कन्टेनर चालक सीट पर बैठे 02 व्यक्ति 1. कादिर व 2. आमिर पुत्रगण हारून निवासीगण ग्राम चन्दवार की मढैया थाना असमौली जनपद सम्भल को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से केन्टर गाडी में रखे 130 प्लास्टिक के कट्टे, 20 पेटी कैच कम्पनी के मसाले, 01 तमंचा 02 जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 तमंचा 03 जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुये । बुलेरो गाडी के आगे पीछे नम्बर प्लेट ना होने तथा कागज न होने के कारण धारा 207 MV Act के अन्तर्गत सीज किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में रजबपुर पर 1. मु0अ0स0 182/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 बनाम कादिर उर्फ गब्बर व 2. मु0अ0सं0 183/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 बनाम आमिर पंजीकृत किया गया । फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत है ।



उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तगण आमिर खान व कादिर उर्फ गब्बर उपरोक्त उक्त लूट की घटना के सम्बन्ध में थाना रजबपुर पर पंजीकृत मु०अ०स० 164/2021 धारा 395,412 भादवि में वांछित चल रहे थे जिनकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक अमरोहा द्वारा **दस-दस हजार रुपयों का पुरस्कार घोषित** किया गया था।

**बरामद लूटे हुए माल का वजन करीब 27.50 कुन्तल व कीमत करीब 07.50 लाख रुपये व गाडी केन्टर कीमत करीब 15 लाख रुपये कुल 22.50 लाख रुपये है।**

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण:-**

1. आमिर खान पुत्र हारुन निवासी ग्राम चन्दवार की मढैया थाना असमौली जनपद सम्भल।
2. कादिर उर्फ गब्बर पुत्र हारुन निवासी ग्राम चन्दवार की मढैया थाना असमौली जनपद सम्भल।

### **बरामदगी:-**

1. एक केन्टर गाडी चैंसिस न० MBUZT54XDV-0220293 इंजन न० SLTHT3DV2133976 रजि० न० UP14 FT 3811
2. एक बुलेरो गाडी चैंसिस न० MA1XK2WJXH5F33936 इंजन न० WJHF-45092 (बिना नम्बर प्लेट लगी)।
3. 130 प्लास्टिक के कट्टे व 20 पेटी कैच कम्पनी के मसाले।
4. 01 तमन्चा व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।
5. 01 तमन्चा व 03 जिन्दा कारतूस 12 बोर।

### **फरार अभियुक्तगण:-**

1. मौहम्मद रफी पुत्र हुसैन बक्स निवासी ग्राम चन्दवार की मढैया थाना असमौली जनपद सम्भल।
2. इमरान पुत्र हुसैन बक्स निवासी ग्राम चन्दवार की मढैया थाना असमौली जनपद सम्भल।
3. बिसारत पुत्र हुसैन बक्स निवासी ग्राम चन्दवार की मढैया थाना असमौली जनपद सम्भल।
4. साकिब पुत्र फकीरा निवासी ग्राम बहरामपुर बाडली थाना बाबूगढ जनपद हापुड।

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त कादिर उर्फ गब्बर:-**

1. मु०अ०स० 164/21 धारा 395/412 थाना रजबपुर जनपद अमरोहा।
2. मु०अ०स० 182/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधि० थाना रजबपुर जनपद अमरोहा।
3. मु०अ०स० 174/21 धारा 411,413,414, 120बी थाना असमौली जनपद सम्भल।
4. मु०अ०स० 171/21 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) थाना असमौली जनपद सम्भल।

5. मु0अ0सं0 180/21 धारा 342,364,394 भादवि थाना पाकवाडा जनपद मुरादाबाद ।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त आमिर:-**

1. मु0अ0सं0 164/21 धारा 395/412 थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0सं0 183/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ।
3. मु0अ0सं0 174/21 धारा 411,413,414, 120बी थाना असमौली जनपद सम्भल ।
4. मु0अ0सं0 171/21 धारा 307 भादवि (पुलिस मुठभेड) थाना असमौली जनपद सम्भल ।
5. मु0अ0सं0 180/21 धारा 342,364,394 भादवि थाना पाकवाडा जनपद मुरादाबाद ।

**अपराध करने का तरीका-** अभियुक्त कादिर उर्फ गब्बर का अपना एक गैंग है जिसमे उपरोक्त अभियुक्तगण सदस्य है । उपरोक्त गैंग हाईवे पर किसी ढाबे/सुनसान जगह पर खडे होकर आने-जाने वाली गाडियों की निगरानी करते हैं। जिस गाडी में ज्यादा माल मिलने की सम्भावना व एक चालक होने पर गाडी का पीछा करके अपनी गाडी से ओवर टेक करके गाडी को रुकवाकर चालक को कब्जे में लेकर गाडी को लूट लेते हैं और चालक को सुनसान जगह पर हाथ पैर बांधकर छोड जाते हैं । लूटे गये माल को बाजार में बेच देते हैं ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- प्रथम-**
1. प्रभारी निरीक्षक श्री शरद मलिक थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ।
  2. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार थाना रजबपुर, अमरोहा ।
  3. उ0नि0 श्री मनोज कुमार बालियान थाना रजबपुर, अमरोहा ।
  4. का0 665 निशान्त कुमार थाना रजबपुर, अमरोहा ।
  5. का0 174 धर्मेन्द्र कुमार थाना रजबपुर, अमरोहा ।
  6. का0 501 विकास राठी थाना रजबपुर, अमरोहा ।
  7. का0 630 अनिल कुमार थाना रजबपुर, अमरोहा ।
  8. का0 चालक ऋषिकेश थाना रजबपुर, अमरोहा ।

- द्वितीय-**
1. प्रभारी एस.ओ.जी./सर्विलांस श्री रविन्द्र सिंह जनपद अमरोहा ।
  2. हे0का0 90 अनिल कुमार सर्विलांस सेल अमरोहा
  3. हे0का0 95 गौरव शर्मा एस.ओ.जी. टीम अमरोहा ।
  4. का0 310 योगेश तोमर सर्विलांस सेल अमरोहा
  5. का0 877 विजय शर्मा एस.ओ.जी. टीम अमरोहा ।
  6. का0 733 अरविंद शर्मा सर्विलांस सेल अमरोहा
  7. का0 973 कमल कुमार एस.ओ.जी. टीम अमरोहा ।



**सोशल मीडिया सेल  
जनपद अमरोहा ।**